

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 19.10.2020

स्वाट टीम द्वारा मुंबई इंडियंस बनाम किंग इलेवन पंजाब क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाकर जुआं खेलते हुए 04

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 90,000 रुपये की नकदी, 09 मोबाइल आदि सामान बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक अवराध श्री शिवराम यादव व अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में श्री सुधीर कुमार त्यागी प्रभारी स्वाट मय टीम के दिनांक 18.10.2020 की रात्रि में थाना जहाँगीराबाद क्षेत्र में तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ग्राम साखनी में चौतरे पर पेड़ के पास बैठकर मोबाइल फोन पर ऑनलाइन कनेक्शन/लाइन लेकर आईपीएल मुंबई इंडियंस बनाम किंग इलेवन पंजाब क्रिकेट मैच पर हारजीत की बाजी लगाकर सट्टा/जुआं खिलाकर अवैध रूप से धन अर्जन किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्वाट टीम मुखबिर द्वारा बताये गये उक्त स्थान पर पहुँचकर घेराबन्दी करते हुए 04 अभियुक्तों को क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए समय करीब रात्रि 10.40 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनके कब्जे से 90,000 रुपये की नकदी, 09 मोबाइल आदि सामान बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- नुरेन उर्फ ननवा पुत्र शौर अली निवासी ग्राम साखनी थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर।
- 2- मुसबिब मेहदी पुत्र मुजफ्फर हुसैन निवासी उपरोक्त।
- 3- अतहर अब्बास पुत्र मंजूर आबिद निवासी उपरोक्त।
- 4- मशरे कैन पुत्र शौर अली निवासी उपरोक्त।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 90,000 रुपये की नकदी
- 2- 09 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी
- 3- 05 पैस व 03 रजिस्टर्ड

उपरोक्त अभियुक्त नुरेन उर्फ ननवा द्वारा आर्थिक लाभ हेतु अपने सहयोगी मुसबिब मेहदी, अतहर अब्बास व मशरे कैन आदि के साथ मिलकर मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन कनेक्शन/लाइन लेकर सट्टे के रेट प्राप्त कर क्रिकेट मैच पर हारजीत की बाजी लगाकर जुआं खिलाकर अवैध रूप से धन अर्जित किया जा रहा था।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जहाँगीराबाद पर मु0अ0सं0-491/2020 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्वाट टीम (क्राइम ब्रांच)-

- 1- श्री सुधीर कुमार त्यागी प्रभारी निरीक्षक स्वाट
- 2- श्री अखिलेश कुमार गौड़ प्रभारी सर्विलांस सैल
- 3- उ0नि0 अजयदीप, उ0नि0 धीरज राठी
- 4- है0का0 असलम, है0का0 जितेन्द्र यादव, का0 वसीम, का0 कपिन नैन, का0 विशाल चौहान, का0 आकाश नेहरा, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 अभिषेक सिंह, का0 प्रबली तोमर, का0 आशीष कुमार, का0 चालक जितेन्द्र त्यागी